



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 516]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 26, 2007/अग्राहायणा 5, 1929

No. 516]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 26, 2007/AGRAHAYANA 5, 1929

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

सा.का. नि. 731 (अ)—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के खंड 61 के उप-खंड (2) की धारा (क) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड नामतः निम्नलिखित नियम बनाता है :

अध्याय 1

आरंभिक

1. संक्षिप्त शीर्ष और प्रारंभ : (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (बोर्ड की बैठकें) नियामक, 2007 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक—

(क) “अधिनियम” का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 ।

(ख) “बोर्ड” का अर्थ है इस अधिनियम के खंड 3 के उप-खंड (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ।

(ग) “अध्यक्ष” का अर्थ है इस अधिनियम के खंड 4 के अंतर्गत नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष ।

(घ) “सदस्य” का अर्थ है इस अधिनियम के खंड 4 के अंतर्गत नियुक्त बोर्ड का सदस्य ।

(2) यहाँ पर प्रयुक्त अन्य वे सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जिनको परिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है ।

(3) जब तक इन नियमों में अथवा अधिनियम में परिभाषित न हो सामान्य धारा अधिनियम के समय-समय पर यथासंशोधित प्रावधान इन नियमों पर लागू होंगे ।

अध्याय II

बोर्ड की बैठकें

3. बोर्ड की बैठकें बुलाना.—(1) अध्यक्ष द्वारा अथवा उनका पद खाली होने से या उनके निदेशानुसार बोर्ड के वरिष्ठतम सदस्य द्वारा, जिसका निर्धारण बोर्ड में नियुक्ति की तिथि से होगा, वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी ।

यह भी प्रावधान होगा कि सदस्यों की नियुक्ति की तिथि एक ही होने की स्थिति में आयु में वरिष्ठ सदस्य को दूसरे सदस्य से वरिष्ठ माना जाएगा ।

(2) अध्यक्ष को बैठक बुलाने के लिए किन्हीं दो सदस्यों की आवश्यकता होगी तथा तदनुसार अध्यक्ष कभी भी बोर्ड की बैठक बुला सकता है ।

4. बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता : अध्यक्ष या यदि अध्यक्ष किसी कारण से बैठक में उपस्थित नहीं है तो उपस्थित वरिष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

5. बोर्ड की बैठक का स्थान एवं समय : बोर्ड की बैठक भारत में ऐसे स्थान एवं समय पर होगी जैसा कि बैठक बुलाने की सूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है।

6. बोर्ड की बैठक के लिए सूचना : (1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए सचिव अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा जिसे अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, कम से कम 7 दिन की सूचना दी जाएगी तथा यह सूचना कार्यसूची के कागजात सहित सभी सदस्यों को कम से कम 7 दिन पूर्व परिचालित की जाएगी।

यह भी प्रावधान है कि यदि बोर्ड की कोई आपातकालीन बैठक बुलाई जानी है तो 7 दिन की सूचना आवश्यक नहीं होगी। तथापि, सदस्यों को इतना पर्याप्त समय दिया जाएगा कि वह बैठक में भाग ले सकें।

यह भी प्रावधान किया गया है कि सदस्यों को परिचालन के माध्यम से भी कोई संकल्प पारित किया जा सकता है अथवा कोई निर्णय लिया जा सकता है।

(2) अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य और उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति के बिना बोर्ड की बैठक में उस कारोबार के अतिरिक्त जिसके लिए यह बैठक बुलाई गई है, किसी अन्य कारोबार पर चर्चा नहीं की जाएगी।

7. आवश्यक कोरम और मतदान : (1) कारोबार के लेन-देन के लिए बोर्ड की किसी बैठक में अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य सहित तीन सदस्यों की उपस्थिति को कोरम माना जाएगा।

(2) बोर्ड की किसी बैठक में प्रस्तुत सभी प्रश्न उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किए जाएंगे तथा बराबर मत होने पर अध्यक्ष, अथवा उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को दूसरा अथवा निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा।

8. अनुपस्थिति अवकाश : बैठक में अनुपस्थित किसी सदस्य को बोर्ड अनुपस्थिति अवकाश दे सकता है और इस प्रकार के अवकाश को बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज दिया जाएगा।

9. बैठक का कार्यवृत्त : (1) बोर्ड सभी बैठकों का कार्यवृत्त इस उद्देश्य हेतु रखी गई बही में रखेगा जिसे विधिवत क्रमांकित खुले पन्नों के बाइंडर के रूप में भी रखा जा सकता है।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति यथासंभव शीघ्र सदस्यों को परिचालित की जाएगी। कार्यवृत्त अध्यक्ष अथवा आगामी बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी तथा उसे उसके बाद अभिलेख पर लिया जाएगा।

10. कार्यवृत्त बही, सामान्य मुहर आदि की अभिरक्षा : बोर्ड का सचिव सामान्य मुहर, बैठक का उपस्थिति रजिस्टर, कार्यवृत्त बही तथा बोर्ड की बैठक से संबंधित अन्य दस्तावेज/अभिलेख आदि की अभिरक्षा रखेगा।

अध्याय III

सदस्यों की बाध्यताएं

11. कुछ मामलों में सदस्यों की सहभागिता का न होना : प्रत्येक सदस्य बोर्ड की किसी बैठक में विचारार्थ आने वाले ऐसे किसी मामले में जिसमें वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, इसकी जानकारी होते ही बोर्ड की ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति का खुलासा कर देगा तथा इस प्रकार से खुलासे को बोर्ड की कार्यवाही में अभिलेखित किया जाएगा तथा ऐसे मामले के संबंध में सदस्य बोर्ड की किसी चर्चा या निर्णय में भाग नहीं लेगा।

व्याख्या : इस नियामक में संदर्भित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष में किसी सदस्य का स्वयं का या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की खंड 6 की परिभाषा के अर्थ के दायरे में उसके किसी रिश्तेदार के माध्यम से अथवा उस कंपनी का भागीदार या निदेशक होना शामिल है।

12. अयोग्यता की सूचना देने के लिए सदस्य की बाध्यता : (1) कोई भी सदस्य इस अधिनियम के खंड 7 में विनिर्दिष्ट किसी अयोग्यता का शिकार हो जाने पर यथाशीघ्र उसकी सूचना बोर्ड को देगा।

(2) किसी सदस्य द्वारा उपर्युक्त (1) में वर्णित अयोग्यता को आकर्षित करने की स्थिति में बोर्ड इसकी सूचना केन्द्र सरकार को देगा।

[एस. प्रशा./II/8/8007-खण्ड-I]

अजय त्यागी, सचिव

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 731 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section of (2) Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Meetings of the Board) Regulations, 2007.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act", means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) "Board", means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under Sub-section (1) of Section 3 of the Act;

(c) "Chairperson", means the Chairperson of the Board appointed under Section 4 of the Act;

(d) "Member", means a Member of the Board appointed under Section 4 of the Act.

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

(3) Unless defined herein or in the Act, the provisions of the General Clauses Act, 1897 as amended from time to time shall apply to these regulations.

CHAPTER II

Meetings of the Board

3. Convening of Board meetings.—(1) Meetings of the Board shall be convened at least once in each quarter of the year by the Chairperson or in his absence on account of the post being vacant or as may be directed by him/her, by the senior most Member reckoned from the date of appointment to the Board :

Provided that in case of common date of appointment of Members, the Member senior in age shall be considered as senior to the other Members.

(2) Any two Members may require the Chairperson to convene a meeting of the Board at any time and the Chairperson shall convene the meeting of the Board accordingly.

4. Presiding over Board meetings.—The Chairperson or if he is unable to attend the meeting of the Board, for any reason, the senior most Member present shall preside over the meeting.

5. Place and time of Board meetings.—Meetings of the Board shall be held at such times and places in India as may be specified in the notice convening the meeting.

6. Notice for Board meetings.—(1) Not less than seven days notice shall ordinarily be given for each meeting of the Board by the Secretary (or any other Officer designated by the Chairperson) and such notice along with agenda papers shall be circulated to every Member, seven working days in advance :

Provided that if any emergency meeting of the Board is to be convened, seven days notice may not be required. However, sufficient notice shall be given to the Member to enable him to attend the meeting :

Provided further that a resolution may be passed or a decision may be taken by circulation of an agenda to the Members.

(2) No business other than that for which the meeting was convened shall be discussed at a meeting of the Board, except with the consent of the Chairperson or the Member presiding over the meeting and a majority of the Members present.

7. Quorum required and voting.—(1) Three Members of the Board including Chairperson or in his absence the Member presiding over the meeting, shall constitute the Quorum for transaction of business at a meeting of the Board;

(2) All questions which come before any meeting of the Board shall be decided by a majority vote of the Members present and voting and in the event of any equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the Member presiding over, shall have a second or casting vote.

8. Leave of absence.—The Board may grant leave of absence to a Member not present in the meeting and such leave of absence shall be recorded in the minutes of the meeting.

9. Minutes of the meeting.—(1) The Board shall cause the minutes of all the meetings to be maintained in the books kept for the purpose, which may be in the form of binders containing loose leaves, duly numbered.

(2) A copy of the minutes of each meeting of the Board shall be circulated as soon as possible to the Members. The minutes shall be signed by the Chairperson or the Member presiding over the succeeding meeting, and taken on record thereafter.

10. Custody of the minutes book, common seal, etc.—Secretary of the Board shall keep custody of common seal, register of attendance of the meetings, minutes book, and other documents/records, etc. pertaining to the meetings of the Board.

CHAPTER III

Obligations of the Members

11. Member not to participate in meetings in certain cases.—Every Member, who is directly or indirectly concerned or interested in any matter coming up for consideration at a meeting of the Board, shall, as soon as possible, after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest at such meeting and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the Board and the Member shall not take any part in any deliberation or decision of the Board with respect to that matter.

Explanation.—The expression “directly or indirectly” referred to in this regulation shall include any concern or interest of a Member either by himself or through his relatives within the meaning of definition of Section 6 of the Companies Act, 1956 (I of 1956) or by reason of being a partner, director of that concern.

12. Obligation of a Member to give information of disqualification.—(1) A Member, as soon as may be, inform the Board if he becomes subject to any of the disqualifications specified in Section 7 of the Act.

(2) The Board shall inform the Central Government, if it comes to the notice of the Board that any Member has attracted the disqualifications referred to in (1) above.

[S-Admn/II/8/8007-Vol.I]

AJAY TYAGI, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

सा. का. नि. 732 (अ)—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के खंड 61 के उप-खंड (2) की धारा (क) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड नामतः निम्नलिखित नियम बनाता है :

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ : (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभार उगाही) नियामक, 2007 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएँ : इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक—

(क) “अधिनियम” का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 ।

(ख) “बोर्ड” का अर्थ है इस अधिनियम के खंड 3 के उप-खंड (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ।

(ग) यहाँ पर प्रयुक्त अन्य वे सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जिनको परिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है ।

3. शुल्क उगाही—(1) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन के लिए निम्नानुसार विनिर्दिष्ट शुल्क लिया जाएगा :

अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गतिविधियाँ	शुल्क (रुपए)
अधिनियम के खंड 15 के उप-खंड (2) के अंतर्गत पंजीकरण	5,00,000
अधिनियम के खंड 17 के उप-खंड (3) के अंतर्गत प्राधिकरण	5,00,000
सीजीडी प्रस्ताव :	
ए श्रेणी के शहर*	12,00,000
अन्य शहर**	8,00,000
पाइप लाइन प्रस्ताव :	
स्पर लाइन	10,00,000
ट्रंक लाइन > या=500 किलोमीटर	15,00,000
ट्रंक लाइन > या=500 किलोमीटर	20,00,000
अधिनियम के खंड 14 के उप-खंड (4) के अंतर्गत किसी प्रविष्टि की प्रमाणित पतिलिपि प्राप्त करना	1,000 प्रति प्रविष्टि
अधिनियम के खंड 25 के उप-खंड (2) के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराना	हस्तियाँ : 10,000 प्रति शिकायत अन्य : 1,000 प्रति शिकायत

* 2001 की जनगणना के अनुसार एक मिलियन या अधिक जनसंख्या वाले शहर ।

** 2001 की जनगणना के अनुसार एक मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर ।

(2) शुल्क का भुगतान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश द्वारा किया जाएगा ।

(3) प्राप्त शुल्क की प्रविष्टि बोर्ड द्वारा बनाए गए एक रजिस्टर में की जाएगी तथा उसमें भुगतान जमा करने वाली हस्ती या शिकायतकर्ता का नाम, जमा करने का उद्देश्य, रकम, डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश की संख्या एवं दिनांक आदि विवरण भरा जाएगा।

4. अन्य प्रभारों की उगाही.—(1) प्रचालन अवधि : जो हस्ती इस अधिनियम के प्रावधानों में शामिल पंजीकरण और/अथवा प्राधिकरण से संबंधित किसी गतिविधि का प्रचालन कर रही है वे बोर्ड को निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार अपने टर्न ओवर पर आधारित अन्य प्रभारों का भुगतान करेगी :

टर्न ओवर	अन्य प्रभार
20,000 करोड़ रुपए तक	0.01% (2 करोड़ रुपए)
20,001 करोड़ रुपए से 50,000 करोड़ रुपए तक	0.008% (2 करोड़ रुपए + > 20,000 करोड़ का 0008%)
50,001 करोड़ रुपए से 100,000 करोड़ रुपए तक	0.005% (4.4 करोड़ रुपए + > 50,000 करोड़ का 0005%)
1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक	0.004% (4.9 करोड़ रुपए + > 100,000 करोड़ का 0004%)

(2) निर्माण अवधि : (क) इस अधिनियम के प्रावधानों में शामिल पंजीकरण और/अथवा प्राधिकरण से संबंधित किसी गतिविधि से संबंधित हस्ती निर्माण अवधि में वित्तीय वर्ष में परियोजित निवेश के आधार पर परियोजना पर अपने पूंजी व्यय (सीएपीईएक्स) के 0.2 प्रतिशत की दर से बोर्ड को वार्षिक आधार पर अन्य प्रभारों का भुगतान करेगी जिसे वर्ष के अंत में वास्तविक व्यय के अनुसार संशोधित कर लिया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त उप-धारा (क) के अंतर्गत किसी हस्ती द्वारा भुगतान दिए गए अन्य प्रभारों को ब्याज जमा माना जाएगा तथा जैसे ही यह हस्ती नियमित प्रचालन प्रारंभ कर देती है तथा उपर्युक्त उप-धारा (1) के अनुसार लागू अन्य प्रभारों के उपर्युक्त स्तर को प्रतिस्थापित कर देती है जैसे ही बोर्ड इसे वापिस कर देगा।

(3) उपर्युक्त प्रभार का भुगतान वार्षिक आधार पर हस्ती द्वारा वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने के 15 दिन के अंदर कर दिया जाएगा।

(4) अन्य प्रभारों का भुगतान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश द्वारा किया जाएगा।

(5) प्राप्त अन्य प्रभारों की प्रविष्टि बोर्ड द्वारा बनाए गए एक रजिस्टर में की जाएगी तथा उसमें भुगतान जमा करने वाली हस्ती का नाम, तथा क्या जमा उप-धारा (1) के अंतर्गत हुआ है अथवा उप-धारा (2) के अंतर्गत, रकम, डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश की संख्या एवं दिनांक तथा यदि भुगतान उप-धारा (2) के अंतर्गत हुआ है तो धन वापसी का विवरण भरा जाएगा।

5. शुल्क एवं अन्य प्रभारों की समीक्षा एवं संशोधन की शक्तियां : इन नियामकों के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाले शुल्क एवं अन्य प्रभार के ढांचे की बोर्ड समय-समय पर समीक्षा एवं इसमें संशोधन कर सकता है। बोर्ड किसी भी समय किसी प्रभावित पक्ष के संदर्भ पर तथा यथा एवं उचित कारणों से इन नियामकों के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाले शुल्क एवं अन्य प्रभार के ढांचे की समीक्षा एवं इसमें संशोधन कर सकता है।

6. व्याख्यापक ज्ञापन : इन नियामकों की पृष्ठभूमि तथा इन्हें जारी करने का कारण अनुबंध क में व्याख्यापक ज्ञापन में दिया गया है।

7. विवेचना : यदि इन नियामकों के प्रावधानों की विवेचना के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

[एस. प्रशाल/II/8/8007-खण्ड-I]

अजय त्यागी, सचिव

अनुबंध क

व्याख्यापक ज्ञापन

1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के खंड 61 के उप-खंड (2) की धारा (जी) बोर्ड को नियमों द्वारा निर्धारित सेवाओं पर नियमों द्वारा निर्धारित दर से शुल्क एवं अन्य प्रभारों की उगाही के लिए शक्तियां पदान करती है।

2. अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न सेवाओं/गतिविधियों

पर शुल्क एवं अन्य प्रभारों की उगाही का निर्णय लिया है जिसके लिए ये नियम बनाए गए हैं।

3. शुल्क की उगाही की आवश्यकता इस तथ्य के कारण हुई है कि बोर्ड द्वारा इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों की छंटनी तथा उनसे जुड़ी पंजीकरण, प्राधिकरण, शिकायत आदि से संबंधित प्रक्रिया से उपलब्ध सीमित नियामक संसाधनों पर दबाव पड़ता है।

4. शुल्क की उगाही के अतिरिक्त बोर्ड को नियमों के द्वारा हस्तियों से अधिनियम के खंड 11 के अधीन विभिन्न कार्यों के लिए जाने वाले अन्य प्रभारों का स्तर भी निर्धारित करना पड़ता है। बोर्ड को पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन आदि के नियमन करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि उपभोक्ताओं तथा हस्तियों के हितों की रक्षा की जा सके तथा देश के सभी हिस्सों में विनिर्दिष्ट उत्पादों की पर्याप्त एवं निर्वाह अपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक बाजार को भी प्रोन्नत किया जा सके। बोर्ड द्वारा देखे जाने वाले उद्योग का आकार विशाल है तथा इसकी प्रकृति अलग-अलग है जिसमें अब तक 10,000 किलोमीटर से अधिक लंबी उत्पाद पाइप लाइन, 6000 किलोमीटर से अधिक लंबी प्राकृतिक गैस पाइप लाइन तथा अनेक नगर गैस वितरण नेटवर्क, 19 रिफाइनरियां, 2 एलएनजी टर्मिनल, 300 से अधिक भंडारण टर्मिनल/डिपो, करीब 200 एलपीजी भराई संयंत्र, करीब 32,000 खुदरा बिक्री केन्द्र, 100 से अधिक विमानन भराई केन्द्र, 6000 से अधिक करोसीन डीलर, 9000 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आदि शामिल हैं। इस उद्योग पर नजर रखने के लिए उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं को देखते हुए बोर्ड ने अपने विशाल एवं विविधीकृत कार्य को पूरा करने के लिए अन्य प्रभार लगाने का भी निर्णय लिया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2007

G.S.R. 732(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of Sub-section (2) of Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;
- (b) “Board” means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under Sub-section (1) of Section 3 of the Act; and
- (c) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Levy of Fee.—(1) Every application under various provisions of the Act shall accompany fee as specified below :

Activity under the provisions of the Act	Fee (Rs.)
Registration under sub-section (2) of Section 15 of the Act	5,00,000
Authorisation under sub-section (3) of Section 17 of the Act—	
CGD Proposal :	
Class A city*	12,00,000
Other cities**	8,00,000
Pipeline Proposal :	
Spur lines	10,00,000
Trunk lines < or = 500 Kilometers	15,00,000
Trunk lines > 500 Kilometers	20,00,000
Obtaining a certified copy of an entry in the register under Sub-section (4) of Section 14 of the Act	1,000 per entry

Filing a complaint under Sub-section (2) of Section 25 of the Act

Entities : 10,000 per
complaint

Others : 1,000 per
complaint

*Towns with population one million and above as per 2001 Census

**Towns with population less than one million as per 2001 Census

(2) The fee shall be paid through demand draft or pay order in favour of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board payable at New Delhi;

(3) The fee received shall be entered into a register to be maintained by the Board with details such as name of the entity or complainant remitting the payment, purpose of remittance, amount, number and date of demand draft or pay order as the case may be.

4. **Levy of other charges.—**(1) **Operation period :** The entity who is undertaking operation of any of the activities covered under the provisions of the Act relating to registration and/or authorization, shall pay other charges to the Board on annual basis based on its turn over as per following formulation,—

Turn over	Other charges
Upto Rs. 20,000 crore	0.01% (Rs. 2 crore)
Rs. 20,001 to 50,000 crore	0.008% (Rs. 2 crore + 0.008% of > 20,000 crore)
Rs. 50,001 to 1,00,000 crore	0.005% (Rs. 4.4 crore + 0.005% of > 50,000 crore)
More than Rs. 1,00,000 crore	0.004% (Rs. 4.9 crore + 0.004% of > 1,00,000 crore)

(2) **Construction period :** (a) The entity relating to any of the activities of registration and/or authorization covered under the provisions of the Act shall pay other charges to the Board on annual basis during the construction period at the rate of 0.2 per cent of their capital expenditure (CAPEX) of the project based on projected investment in the financial year, which shall be modified at the end of that financial year as per the actual expenditure;

(b) Other charges remitted by an entity under sub-clause (a) above shall be treated as an interest free deposit and the Board shall refund such other charges once the entity commences regular operations and replaces with the appropriate level of other charges as applicable during the operation period as per sub-clause (1) above.

(3) The other charges shall be paid annually within fifteen days from the date of finalizing the annual statement of accounts by the entity.

(4) The other charges shall be paid through demand draft or pay order in favour of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board payable at New Delhi.

(5) The other charges received shall be entered into a register to be maintained by the Board with the details such as name of the entity remitting the payment, whether remittance under sub-clause (1) or sub-clause (2), amount, number and date of demand draft or pay order as the case may be and refund particulars in case of the remittance under sub-clause (2).

5. **Power to review and modify fee and other charges.—**The Board may from time to time, review and modify the structure of fee and other charges payable under these regulations. The Board may also at any time, on reference from any affected party, and for good and sufficient reasons, review and modify the structure of fee and other charges payable under these regulations.

6. **Explanatory Memorandum.—**The background and reasons for issuing these regulations are given in the explanatory memorandum at Annexure A.

7. **Interpretation.—**If any dispute arises with regard to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Board shall be final and binding.

[S-Admn/II/8/8007-Vol.I]

AJAY TYAGI, Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Clause (g) of Sub-section (2) of Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 empowers the Board to levy fee and other charges at such rates and in respect of such services as may be determined by regulations.

2. In view of the powers conferred under the Act, the Board has decided to levy fee and other charges for various services/activities as provided for under the Act and hence these regulations.

3. The levy of fee has been necessitated on account of the fact that scrutiny of such a large number of applications and the process associated with them pertaining to registration, authorization, complaints etc. by the Board puts pressure on scarce regulatory resources available.

4. In addition to levy of fee, the Board is also required to determine through regulations the level of "other charges" that will be charged from entities for various functions to be discharged by under Section 11 of the Act. The Board is required to regulate the refilling, processing, storage, transportation, distribution, marketing and sale of petroleum, petroleum products and natural gas so as to protect the interests of the consumers and entities and to ensure uninterrupted and adequate supply of the specified items in all parts of the country and to promote competitive markets as well. The industry overseen by the Board is vast and varied in nature, covering as of now over 10,000 km of product pipelines, over 6000 km of natural gas pipelines and a number of city gas distribution networks, 19 refineries, 2 LNG terminals, over 300 storage terminals/depos, around 200 LPG bottling plants, around 32,000 retail outlets, over 100 aviation fueling stations, over 6000 kerosene dealers, over 9,000 LPG distributorships, etc. Considering the limitation on the available resources for the purpose of overseeing this industry, the Board has also decided to levy "other charges" for discharging its vast and varied functions.